

अध्याय - 15 | वृक्षाः सत्पुरुषाः इव

QUIZ
PART-03

1. वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ क्यों माना गया है?

- A. वे बहुत विशाल होते हैं।
B. वे वन में रहते हैं।
C. उनका जीवन सभी प्राणियों के लिए उपयोगी होता है।
D. उन पर पक्षी रहते हैं। (C)

व्याख्या: वृक्षों का सम्पूर्ण जीवन सभी जीवों की सहायता करने में व्यतीत होता है।

2. वृक्षों के पास आने वाले याचक कैसे नहीं लौटते?

- A. प्रसन्नाः
B. विमुखाः
C. सन्तुष्टाः
D. धनवन्तः (B)

व्याख्या: वृक्षों के पास आने वाले याचक खाली हाथ अथवा निराश होकर नहीं लौटते।

3. वृक्ष लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार क्या देते हैं?

- A. केवल जलम्
B. केवल काष्ठम्
C. केवल पुष्पाणि
D. फलानि, पुष्पाणि, छायां च (D)

व्याख्या: वृक्ष लोगों को फल, फूल, छाया तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ देते हैं।

4. परोपकार के लिए कौन फलते हैं?

- A. वृक्षाः
B. नद्यः
C. गावः
D. मेघाः (A)

व्याख्या: सुभाषित में कहा गया है—“परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः।”

5. परोपकार के लिए कौन बहती हैं?

- A. गावः
B. वृक्षाः
C. नद्यः
D. लताः (C)

व्याख्या: नदियाँ अपना जल दूसरों के उपयोग के लिए लेकर बहती हैं।

6. परोपकार के लिए कौन दूध देती हैं?

- A. अश्वाः
B. गावः
C. मृगाः
D. सिंहाः (B)

व्याख्या: गायें दूसरों के हित के लिए दूध प्रदान करती हैं।

7. हमारा शरीर किस उद्देश्य के लिए होना चाहिए?

- A. केवल भोजनाय
B. केवल निद्रायै
C. मनोरञ्जनाय
D. परोपकाराय (D)

व्याख्या: सुभाषित का संदेश है कि हमारा शरीर भी दूसरों की सहायता के लिए होना चाहिए।

8. वृक्ष अपने फलों के साथ क्या करते हैं?

- A. स्वयं न खादन्ति
B. स्वयं सर्वाणि खादन्ति
C. भूमौ क्षिपन्ति
D. गृहे स्थापयन्ति (A)

व्याख्या: वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते; दूसरे प्राणी उनका उपयोग करते हैं।

9. नदियों के जल का उपयोग कौन करते हैं?

- A. केवल नद्यः
B. केवल वृक्षाः
C. अन्य प्राणिनः
D. केवल मेघाः (C)

व्याख्या: नदियों का जल अन्य मनुष्य और प्राणी अपने उपयोग में लेते हैं।

10. पाठ के अनुसार हमारा जीवन कैसा होना चाहिए?

- A. केवल स्वार्थ के लिए
B. दूसरों के उपकार के लिए
C. केवल धन कमाने के लिए
D. केवल मनोरंजन के लिए (B)

व्याख्या: वृक्ष, नदी और गाय के समान हमारा जीवन भी परोपकार के लिए होना चाहिए।